



राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी National Testing Agency

Excellence in Assessment

(उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)
(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

प्रेस विज्ञप्ति 19 मार्च, 2021

एनटीए, जीपैट 2021 का एनटीए स्कोर घोषित कर रहा है।

एनटीए द्वारा जीपैट परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए कुल 47942 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। 45504 अभ्यर्थी उपस्थित हुए।

यह परीक्षा 121 शहरों के 271 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

केंद्र में परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन की निगरानी के लिए कुल 213 पर्यवेक्षक, 111 नगर समन्वयक, 19 क्षेत्रीय समन्वयक तथा 02 राष्ट्रीय समन्वयक तैनात किए गए थे।

आज जीपैट के स्कोर घोषित किए जा रहे हैं।

पंजीकृत अभ्यर्थियों की लिंग और श्रेणी वार संख्या

लिंग	सामान्य	सामान्य- ईडब्ल्यूएस	ओबीसी- एनसीएल (केंद्रीय सूची)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	दिव्यांग	कुल
महिला	8783	2345	11334	3022	768	80	26332
पुरुष	5346	2958	10113	2372	668	152	21609
ट्रांसजेंडर	1	0	0	0	0	0	1
कुल	14130	5303	21447	5394	1436	232	47942

उपस्थित अभ्यर्थियों की लिंग और श्रेणी वार संख्या

लिंग	सामान्य	सामान्य- ईडब्ल्यूएस	ओबीसी- एनसीएल (केंद्रीय सूची)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	दिव्यांग	कुल
महिला	8242	2253	10705	2852	721	73	24846
पुरुष	5135	2851	9648	2241	640	142	20657
ट्रांसजेंडर	1	0	0	0	0	0	1
कुल	13378	5104	20353	5093	1361	215	45504

एनटीए स्कोर प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा बताई गई श्रेणी और दिव्यांगता जैसे अभ्यर्थी के विवरण बताए गए हैं।

परीक्षा पूरी तरह से CBT मोड में आयोजित की गई थी।

परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु, परीक्षार्थियों द्वारा सत्यापन के लिए प्रश्न पत्र और दर्ज की गई प्रतिक्रियाओं को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था।

परिणामों की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, अभ्यर्थियों द्वारा चुनौतियों को आमंत्रित करने हेतु प्रश्न पत्रों की कुंजियों को पहले से प्रदर्शित किया गया था।

देशव्यापी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2776 कैमरों से लाइव सीसीटीवी निगरानी की गई थी।

परीक्षा के दौरान, अभ्यर्थियों द्वारा मोबाइल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से किए जाने वाले अनुचित व्यवहार या कदाचार को रोकने हेतु परीक्षा केंद्रों पर 1844 जैमर लगाए गए थे।

ये परीक्षाएँ कोविड-19 से सावधानियां बरतते हुए संचालित की गई थीं।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु, अभ्यर्थी एनटीए के सहायता केंद्र नंबर 011-4075 9000 पर सम्पर्क या ईमेल gpat@nta.ac.in कर सकते हैं।

(डॉ साधना पाराशर)
वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा)